

विद्या भवन बालिका विद्यापीठ

शक्ति उत्थान आश्रम लखीसराय

विषय -हिंदी

वर्ग दशम

दिनांक -12- 4-2020

शिक्षिका -सरिता कुमारी

व्याकरण

मिश्र वाक्य (उपवाक्य के भेद)

बच्चों!

अभी तक पूर्व कक्षा में हमलोगों ने उपवाक्य के तीन भेद पढ़े, जिसमें

संज्ञा उपवाक्य,

विशेषण उपवाक्य

क्रिया विशेषण उपवाक्य

भेदों को जानना। संज्ञा उपवाक्य के बारे में पुनः मैं बता दूँ कि जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयोग हुआ हो, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं।

बच्चों यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम विशेषण उपवाक्य के बारे में जानेंगे।

**विशेषण उपवाक्य** - जो आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं।

जैसे- हमारे घर जो भी आएगा, उसका सम्मान किया जाएगा।

यहां हम देख रहे हैं **हमारे घर जो भी आएगा** ऐसे आश्रित उपवाक्य हैं जो 'उसका' सर्वनाम की विशेषता बताते हैं।

अन्य उदाहरण और भी देखें-

मैं उन सभी छात्रों को जानती हूँ, जिन्हें शक के दायरे में रखा गया है।

आपकी वह किताब कहां है ,जो आप कल आए थे।

जो मेहनत करता है, उसे अवश्य सफलता मिलती है।

तुमने जिसके लिए झूठ बोला था ,वह तो दिखाई भी नहीं दिया।

जो लोग दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं ,उन्हें सब प्यार करते हैं।

यहां देखने की बात यह है कि विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ सर्वनाम जो ,अथवा इसके किसी रूप (जैसे- जिसने ,जिससे, जिनको ,जिनके) आदि से होता है।

बच्चों, अब आपके कार्य करने की बारी है।

दिए गए पाठ्य सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं वर्ग कार्य पुस्तिका में उतारें।

आज के लिए बस इतना ही।

बाकी अगले कक्षा में.....।

**व्यवहारिक बातें**

**समय को ईश्वर माने और कर्म के पुष्प दीप से पूजन करें तो आपको आशीर्वाद रूप में विजय प्राप्त होगी।**